


गोर्जिबले और उखके तीन बाल

Nozibele and the three hairs



Tessa Welch

Wiehan de Jager

Nandani

3

हिंदी / English

Global Storybooks

[globalstorybooks.net](http://globalstorybooks.net)


गोर्जिबले और उखके तीन बाल / Nozibele

and the three hairs

Tessa Welch

Wiehan de Jager

Nandani (hi)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>





बहुत समय पहले की बात है, तीन लड़कियाँ लकड़ी इकट्ठा करने बाहर गईं।

...

A long time ago, three girls went out to collect wood.



उस दिन बहुत गर्मी थी इसलिए वे नदी में तैरने चली गई। उन्होंने पानी में खेला, छीटे उड़ायें और तैराकी की।

...

It was a hot day so they went down to the river to swim. They played and splashed and swam in the water.



फिर कुत्ते को पता चल गया कि नौखिले ने उसे छला है। यह पता चलते ही वह गाँव की तरफ दौड़ा पड़ा। लेकिन नौखिले के भाई अपना नौखिले में बड़े - बड़े डंडों के साथ उसका डंतांगार कर रहे थे। उन्हें देखकर कुत्ता वापस मुड़कर भागा गया और फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया।

...

Then the dog knew that Nozibele had tricked him. So he ran and ran all the way to the village. But Nozibele's brothers were waiting there with big sticks. The dog turned and ran away and has never been seen since.



अचानक, उन्हें लगा कि बहुत देर हो चुकी है। वे जल्दी-जल्दी गाँव की तरफ़ लौटने लगीं।

...

Suddenly, they realised that it was late. They hurried back to the village.



जब कुत्ता लौटकर वापिस आया, उसने नोज़िबेले को ढूँढ़ा। “नोज़िबेले कहाँ हो तुम?” वह चिल्लाया। “मैं यहाँ हूँ, बिस्तर के नीचे,” पहले बाल ने कहा। “मैं यहाँ हूँ, दरवाजे के पीछे,” दूसरे बाल ने बोला। और तीसरे बाल ने कहा “मैं यहाँ हूँ, बाड़े में”।

...

When the dog came back, he looked for Nozibele. “Nozibele, where are you?” he shouted. “I’m here, under the bed,” said the first hair. “I’m here, behind the door,” said the second hair. “I’m here, in the kraal,” said the third hair.

too late.

When they were nearly home, Nozibele put her hand to her neck. She had forgotten her necklace! "Please come back with me!" she begged her friends. But her friends said it was

...

गड़ है, वे उसके साथ नहीं जा सकतीं।

बापस चलीं!" लेकिन उसकी सहैलियों ने कहा कि अब बहुत देर हो आयी थी! उसने अपनी सहैलियों से निन्ती की "कृपया मुझे साथ लैय लगाया। उसे पहँसास हँआ कि वह अपने गले का हँर वहीं भँल जब वे लगभग घर के पास पहुँच गई, नोडिबेले ने अपने गले पर



could.

As soon as the dog had gone, Nozibele took three hairs from her head. She put one hair under the bed, one behind the door, and one in the kraal. Then she ran home as fast as she

...

सकती थी अपने घर की तरफ आगी।

और तीसरे का बाँड़े में रख दिया। फिर जितनी तेजी से वह आग बाल की उसने बिस्तर के नीचे रख दिया, दूसरे को दरवाजे के पीछे लुँसे ही कँसा गया, नोडिबेले ने अपने घर से तीन बाल तोड़े। एक





इसलिए नोज़िबेले अकेले ही नदी की तरफ़ चली गई। उसे अपना हार मिल गया और वह जल्दी-जल्दी घर की ओर लौटने लगी। लेकिन वह अंधेरे में रास्ता भटक गई।

...

So Nozibele went back to the river alone. She found her necklace and hurried home. But she got lost in the dark.



हर रोज़ वह कुत्ते के लिए खाना बनाती, झाड़ू लगाती और उसको नहलाती। फिर एक दिने कुत्ते ने कहा, “नोज़िबेले, आज मैं अपने कुछ दोस्तों के घर जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले घर में झाड़ू लगा देना, खाना बना देना और मेरा सामान धो देना।”

...

Every day she had to cook and sweep and wash for the dog. Then one day the dog said, “Nozibele, today I have to visit some friends. Sweep the house, cook the food and wash my things before I come back.”

In the distance she saw light coming from a hut. She hurried towards it and knocked at the door.

...

कुछ दूर उसे कुछ रोशनी सी दिखाई दी जो एक झोपड़ी से आ रही थी। वह जल्दी से रोशनी की ओर बढ़ी और उसने दरवाजा खटखटाया।



Then the dog said, "Make the bed for me!" Nozibele answered, "I've never made a bed for a dog." "Make the bed, or I'll bite you!" the dog said. So Nozibele made the bed.

...

फिर कुत्ते ने कहा, "मेरा बिस्तर बनाओ!" "मैंने कुत्ते के लिए कभी बिस्तर नहीं बनाया।" "बिस्तर बनाओ, नहीं तो काटा लूंगा!" कुत्ता बोला। तो नोजिबेले ने बिस्तर बना दिया।





अंदर से एक कुत्ते ने दरवाज़ा खोला। कुत्ते को देख कर वह चौंक गई। कुत्ते ने पूछा “तुम्हें क्या चाहिए?” नोज़िबेले ने कहा “मैं खो गई हूँ और मुझे सोने के लिए जगह चाहिए”। उसकी बात सुनकर कुत्ते ने कहा “अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें काटूँगा!”। यह बात सुनकर नोज़िबेले अंदर चली गई।

...

To her surprise, a dog opened the door and said, “What do you want?” “I’m lost and I need a place to sleep,” said Nozibele. “Come in, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele went in.



फिर कुत्ते ने कहा, “मेरे लिए खाना बनाओ!”। “लेकिन मैंने कभी भी किसी कुत्ते के लिए खाना नहीं बनाया है,” उसने उत्तर दिया। कुत्ते ने फिर कहा “खाना बनाओ, नहीं तो मैं काटूँगा!”। यह सुनकर नोज़िबेले ने कुत्ते के लिए कुछ खाना बना दिया।

...

Then the dog said, “Cook for me!” “But I’ve never cooked for a dog before,” she answered. “Cook, or I’ll bite you!” said the dog. So Nozibele cooked some food for the dog.